



Date: 18 July 2023

To
Secretary
Listing Department

To
Secretary
Listing Department

BSE Limited

Department of Corporate Services Phiroze
Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code : 540902
ISIN : INE371P01015

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Mumbai – 400 050
Scrip Code : AMBER
ISIN : INE371P01015

Dear Sir/Ma'am,

Subject: Newspaper Advertisement titled “33rd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (“VC”) facility

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the following newspapers on 18th July 2023 inter-alia, intimating that 33rd Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 9 August 2023 through VC facility.

- i) Business Standard (English)
- ii) Business Standard (Hindi)
- iii) Charhdikala (Punjabi)

We request you to take the aforesaid on record and oblige.

This will also be hosted on the Company's website, at www.ambergrouppindia.com


Thanking You,
Yours faithfully

For Amber Enterprises India Limited

(Konica Yadav)

Company Secretary and Compliance officer

Membership No. : A30322



Amber Enterprises India Limited

Corp. Address:
Universal Trade Tower, 1st Floor, Sector 49, Gurgaon-1 22018
Tel.: +91 124 3923000 | Fax: +91 124 3923016,17

Regd. Office:
C-1, Phase II, Focal Point, RajpuraTown-140401, Punjab
Tel.: +91 1762 232126, 232646 | Fax: +91 1762 232127

Untimely showers to spoil consumer durables party

Results of sector firms to disappoint despite some green shoots: Brokerages

SHARLEEN D'SOUZA
Mumbai, 17 July

Unseasonal rains watered down the performance of consumer durables companies as temperatures cooled, impacting the sales of refrigerators and air conditioners (ACs) in the April-June quarter of the 2023-24 financial year (Q1FY24).

Centrum says in its report on the sector that the trade channel indicates a 25-30 per cent year-on-year (YoY) decline in sales of refrigerators and ACs in April and May due to restricted buying.

"While some green shoots in demand were visible in June, overall growth for the quarter is likely to remain at a negative 10-12 per cent," observes the brokerage.

The brokerage also says that demand remains impacted in semi-urban areas due to inflationary pressure on consumer spending, leading to lower footfall across stores.

"Pricing pressure remains intense, especially in the mass and economy segments, as entry-level brands aim at grabbing market share through aggressive pricing, while premium brands have also forayed into the mass category through tactical price reduction," it says.


Axis Capital says in its report that premium products outperform the economy. It also says, "Cables, switchgear, and business-to-business lighting are likely to be relatively better this quarter for the companies we cover."

It expects Voltas to deliver 11 per cent YoY revenue growth, led by 65 per cent growth in electromechanical projects and services due to a

Company	Net sales			Ebitda			PAT**		
	Q1FY24E	QoQ	YoY	Q1FY24E	QoQ	YoY	Q1FY24E	QoQ	YoY
Havells India	4,724	-2.8	11.3	478	-9.2	32.3	347	-3.0	42.8
Dixon Technologies India	3,260	6.3	14.2	150	-4.1	49.7	72	-11.1	57.9
Voltas	3,018	2.8	10.1	253	15.8	44.3	170	18.3	56.3
BlueStar	2,219	-15.4	12.6	151	-16.0	22.1	93	-58.7	25.1
Whirlpool of India	2,164	29.4	4.0	138	30.3	4.4	85	36.2	2.0
Crompton Greaves Consumer Electricals	1,878	4.8	0.8	224	6.0	1.9	132	0.8	9.3
Bajaj Electricals	1,306	-11.4	6.2	82	-3.8	10.1	47	-9.7	8.9
Johnson Controls-Hitachi AC	788	4.4	-2.2	33	43	144	11	-	-
Orient Electric	639	-2.9	2.8	49	4.7	27.2	24	-2.8	26.3
Symphony	288	-6.5	-12.5	34	47.0	-0.5	28	73.9	-4.1

Ebitda: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; PAT: Profit after tax; E: Estimates
Compiled by BS Research Bureau Source: Bloomberg

UP & AWAY



Source: Exchange

favourable base. The brokerage also expects Crompton Greaves to report 10 per cent YoY revenue growth, led by 10 per cent growth in electrical consumer durables, led by market-share gains in fans and pumps, and 8 per cent growth in lighting.

The brokerage also says it will look out for commentary from companies in the sector on demand trends, competitive intensity, and margin

expectations. Nirmal Bang highlights in its preview of the sector that it expects a moderate top-line growth of 11.8 per cent YoY due to lower offtake of refrigerators and ACs, fans, and air coolers in consumer durables and a moderate top-line growth of 10.1 per cent YoY in consumer electronics.

"Healthy growth in wires and cables is expected to be offset by tepid growth in consumer lighting and other business-to-consumer electrical products," says the brokerage.

On margin expansion in the sector, Nirmal Bang states in its report, "Consumer durables and consumer electricals are expected to post 20-basis points (bp) YoY/30-bp YoY margin expansion. While the consumer durables portfolio is expected to witness operating leverage, the same will be offset by easing raw material costs, the

benefit of backward integration, and a higher contribution from premium products."

The brokerage also expects the revenues of a few companies to get a leg-up on YoY basis as they opt for the government's production-linked incentive (PLI) scheme.

Higher backward integration (on the back of PLI schemes) and the expansion of the premium product portfolio are expected to enhance operating margins. Benefits from falling commodity prices are expected to be offset by a sharper depreciation in the rupee/dollar, it says.

It also says, "A significant boost in government capital expenditure allowance in the FY24 Union Budget, as well as a pick-up in the domestic real estate sector, is expected to boost demand for ancillaries such as cables, wires, lighting, switches, switchgear, etc."



RESULTS PREVIEW

Moonlighting income: Taxman knows about it, disclose correctly

Maintain records of extra income accurately, failure to report can lead to legal issues, penalty

BINDISHA SARANG

An increasing number of professionals, especially in the information technology (IT) sector, nowadays take to moonlighting to supplement the salary from their full-time jobs with extra income from freelancing, consulting or a part-time job.

Those who take this road must understand the tax laws associated with moonlighting income, report their extra earnings accurately, and choose the appropriate form when filing their income-tax return (ITR). They must also evaluate whether they would benefit from opting for the presumptive tax scheme (PTS).

Says Ankit Rajgarhia, principal associate at Karanjawala and Co Advocates: "Moonlighting refers to the act of working on a second job or engaging in additional employment, beyond one's regular or primary job. Often, IT professionals undertake freelance projects, consulting gigs, or part-time jobs alongside their full-time employment. They must bear in mind that income earned through moonlighting is taxable."

Taxation of moonlighting income

The Income-Tax (I-T) Act doesn't have any specific provisions for moonlighting. How the extra income is taxed depends on whether it comes in the form of salary, professional fee, or business income.

Says Tabrez Malawat, partner, The Guild, "If the moonlighting income is an additional salary, it is taxed under the head 'Salary'. The tax rate that applies is based on the relevant slab rates. However, if the moonlighting income is derived from freelance work or professional services, it falls under 'Profits and gains

SELECT CORRECT ITR FORM TO REPORT INCOME FROM SIDE HUSTLE

FORM ITR-1 OR SAHAJ: Suitable for resident individuals with total income up to ₹50 lakh, salary from multiple employers, income from a single house property, income from other income sources, and agricultural income up to ₹5,000

FORM ITR-2: For those with capital gains, income exceeding ₹50 lakh, income from more than one house property, directorship in a company, equity shares in an unlisted company, foreign income, resident but not ordinarily resident or non-resident, having loss brought forward, or loss that needs to be carried forward

FORM ITR-3 OR ITR-4: Appropriate for moonlighting income from freelance work or professional services. No income from capital gains, use ITR-3. Have income from capital gains, use ITR-4

Source: The Guild

from business or profession.' This income, is subject to the tax applicable to business or professional

income. Appropriate deductions can also be availed of on such income. The choice of ITR form also depends on the nature of income. Says Soayib Qureshi, partner, PSL Advocates & Solicitors, "To include such income in the ITR, the additional income must be shown in ITR-1 if it is a salary, ITR-3 if it is income from a contractual relationship, and ITR-4 if the person avails of PTS for income from business or profession."

Adopt a presumptive tax scheme? PTS simplifies the calculation and declaration of income for certain professionals, small business owners,

and freelancers. "Under this scheme, the income is assumed to be a specific percentage of the total turnover or gross receipts," says Nikhil Varma, managing partner, MVAC Advocates & Consultants.

Varma adds that PTS can benefit people with moonlighting income by freeing them from the burden of maintaining extensive books of accounts. Says Adithya Reddy, international tax advisor: "If a moonlighting individual's income comes from professions specified in Section 44ADA, PTS allows the individual to be taxed only on 50 per cent of her professional fees."

Qureshi adds that showing additional income as business or professional income comes with the advantage that expenses incurred in executing the second job can be claimed as a deduction.

Maintain records of payments received

Maintain all the relevant records of income earned through moonlighting, including invoices, receipts, and payment details, so that you are able to report your income accurately. Failure to disclose any income can lead to penalties and legal issues.

Says Rajgarhia: "Familiarise yourself with the deductions and exemptions available under the tax laws, which can help lower your overall tax liability. Consult a tax professional to ensure you claim all of them."

If the moonlighting income was in the form of a salary from two employers, obtain Form 16 from both. Says Malawat, "Use these Form 16 certificates to file your ITR. Also, obtain Tax Deducted at Source (TDS) certificates from the employer(s) who have deducted TDS on the moonlighting income. Report it in the appropriate ITR form."

The I-T Department is aware of the TDS from your side hustle. Says Reddy, "The taxpayer should closely monitor Form 26AS, which encompasses the TDS on all of their income."

Any discrepancy between the TDS on all their income sources and the ITR could prompt the tax department to issue a notice."

Indian Overseas Bank
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600002

Indian Overseas Bank (IOB) invites bids for the following:
GOVERNMENT E-MARKET PORTAL - MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF MICROSOFT SUITE OF PRODUCTS AND ASSOCIATED SERVICES
BID NO: GEM/2023/B/3696916 DATED: 15.07.2023
Earlier GEM Bid No: GEM/2023/B/3164933 dated 12.04.2023 has been cancelled.

The Above GEM Tender document is also available and can be downloaded from the following websites
www.iob.in & www.gem.gov.in
For Tender details and future amendments, if any, keep referring to the following website
www.gem.gov.in

Baroda Global Shared Services Ltd.
(A wholly owned subsidiary of Bank of Baroda)
CIN No. U74999MH2017GOI292430

Regd. Office - 5th Floor, Baroda Sun Tower, C-34, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051

RFP for "Appointment of Insurance company for renewal of Group Term Life Insurance (GTL)" for BGSSL Employees.

Baroda Global Shared Services Ltd., (BGSSL), 27th Floor, GIFT One Tower, GIFT City, Gandhinagar-382355 invites Tenders for Appointment of Insurance company for Renewal of Group Term Life Insurance (GTL) for BGSSL employees. Details of Tender form are available under 'Tender Section' on BGSSL website: www.bgssl.in

"Addendum" if any, shall be issued on the BGSSL website only and bidder should refer the same before final submission of the tender.

Last Date of submission of above tender is 7th August 2023, Up to 15.00hrs IST.

Place: Gandhinagar Head - HR Department
Date: 18.07.2023 BGSSL, GIFT City, Gandhinagar
BGSSL/RFP/HR/2023-24/04

amber

AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED
Registered Office: C-1, Phase - II, Focal Point, Rajpura Town - 140 401, Punjab
Corporate Office: Universal Trade Tower, 1st Floor, Sector -49, Sohna Road, Gurugram - 122 018, Haryana
E-mail: info@ambergroupindia.com; Website: www.ambergroupindia.com
Tel: +91 124 3923000; Fax: +91 124 3923016, 17, CIN: L28910PB1990PLC010265

NOTICE FOR HOLDING 33rd ANNUAL GENERAL MEETING OF AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("VC")

The 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Amber Enterprises India Limited (the "Company") will be held on Wednesday, 9 August 2023, at 2.30 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Mode ("VC"/OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular No. 10/2022 dated 28 December 2022, General Circular No. 02/2022 dated 5 May 2022, General Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020 and other applicable Circulars ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated 5 January 2023 issued by Securities Exchange of Board of India ("SEBI") (Collectively referred to as "Circulars") to transact the business as set-out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall only be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the Act, SEBI Listing Regulations and the circulars, the Annual Report and Notice of AGM will be sent to all the members of the Company, on Tuesday, 18 July 2023, whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories for receiving the communications on email.

The Annual Report and Notice of AGM will also be available on the website of the Company at www.ambergroupindia.com and on the websites of the stock exchange at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of the KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com.

The remote e-voting as well as e-voting at the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the Company. The details of the e-voting system and process of e-voting will be specified in the Notice of the AGM. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email ID, can access the details of e-voting system and process as mentioned in the Notice of the AGM and vote on the e-voting system after obtaining the credentials for the purpose of e-voting by writing to evoting@kfintech.com. The credentials will be provided to the members after verification of all details.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations the Register of Members of the Company will remain closed from the 31 July 2023 to the 9 August 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board
For Amber Enterprises India Limited
Sd/-
Konica Yadav
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: 17 July 2023

safari

SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
CIN: L25200MH1980PLC022812
Registered office: 302-303, A Wing, The Qube, CTS No. 1498, A/2, Marol, Andheri (East), Mumbai 400 089; (T): 91-22-40381888 (F): 022-40381850; (E): investor@safari.in (W): www.safaribags.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Safari Industries (India) Limited ("Company") will be held on **Wednesday, 9th day of August, 2023 at 2:30 pm (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses as set out in Notice of the AGM.

Pursuant to Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRP/2020/79 dated 12th May 2020 read with SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") permitted the holding of an AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.

The electronic copies of Annual Report for FY 2022-23 and Notice of 43rd AGM ("Notice") have been sent on 17th July 2023 to all the Members, whose email IDs are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s).

The Annual Report for FY 2022-23 and Notice of 43rd AGM of the Company is available and can be downloaded from the Company's website www.safaribags.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Wednesday, 2nd August 2023 may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice through electronic voting system of NSDL ("remote e-Voting"). All the Members are hereby informed that:

- The businesses as set out in the Notice, may be transacted through remote e-Voting or e-voting system at AGM;
- The remote e-Voting shall commence on Sunday, 6th August 2023 (9:00 am IST) and ends on Tuesday, 8th August 2023 (5:00 pm IST);
- Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of Notice and holding shares as of cut-off date i.e. Wednesday, 2nd August 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-Voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.
- Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after 5:00 pm on Tuesday, 8th August 2023 and once vote on a resolution is cast by Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for e-voting electronically will be made available during the AGM; c) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again and d) a person whose name is recorded in Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or e-voting at the AGM.
- The detailed procedure and instructions for remote e-Voting and e-voting during AGM are given in the Notice.
- In case of queries related to remote e-Voting/ e-voting during AGM/ conduct of AGM through VC/OAVM, Members may refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Anubhav Saxena, Deputy Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013; Email: evoting@nsdl.co.in; Telephone No. 022 48867000/022 24997000 or write to the Company at investor@safari.in.
- Members holding shares in physical form are requested to register/update their e-mail address and bank details with Adroit Corporate Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company and Members holding shares in the dematerialized form are requested to register/update the e-mail address and bank details with their concerned Depository Participant. Additionally, Members may intimate the e-mail address along with their respected Client ID and DP ID/Folio No. by letter/e-mail to the Company on investor@safari.in.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
Sd/-
RAMEEZ SHAIKH
Company Secretary

Date: 17th July 2023
Place: Mumbai

— TENDER CARE — Advertorial

BANK OF BARODA LAUNCHES SPECIALIZED MSME LOUNGE

Bank of Baroda launches specialized MSME lounge at Cannaught Circus and Vikas Marg Branch at New Delhi. These Branches were inaugurated by Shri Ajay K Khurana, Executive Director, Bank of Baroda. During his address Shri Khurana ji emphasized on easy and convenient services to the customers through these Specialized MSME lounges. With this initiative the journey of MSME customers will be exclusive and hassle free. Shri Rakesh Sharma, Zonal Head, New Delhi Zone, Shri Nishant Kumar, Regional Head, South Delhi Region and Smt Nidhi Kumar, Regional Head, East Delhi Region and other executives of the Bank were also present during the occasion.



SBI LADIES CLUB SUPPORTS SENIOR CITIZEN HOME WITH ESSENTIAL DONATIONS

SBI Ladies Club, led by President Smt. Priti Jaiswal, joined hands with its members to extend a helping hand to the residents of the Senior Citizen Home in Chandigarh. Recognizing the daily needs of the elderly inhabitants, the club donated clothes, ration items, fans, gas stoves, and fruits to fulfill their essential requirements. The SBI Ladies Club felt privileged and deeply honored to contribute to the welfare of senior citizen orphans through this humble initiative. With a strong commitment to support social responsibility, the club strives to make a positive impact on society. Managed by the Chandigarh Administration, the Senior Citizen Home is a revered institution that currently provides shelter to 38 elderly individuals. The facility maintains high standards of care, thanks to the dedicated team led by Manager Shri Dinesh Dixit. The SBI Ladies Club commends their efforts in ensuring the well-being and comfort of the senior citizens under their supervision. The SBI Ladies Club expresses its heartfelt gratitude to all its members who generously donated towards this noble cause. Their compassion and support have helped bring smiles to the faces of the senior citizens, making a significant difference in their lives.



SHANKAR PRASAD PENUKONDA POSTED AS GENERAL MANAGER IN CHANDIGARH CIRLCE

Sh. Shankar Prasad Penukonda has joined as General Manager, Network-1, State Bank of India, Local Head Office Chandigarh. Shri Shankar Prasad Penukonda started his career with SBI in September 1995. In his illustrious career of more than 27 years, he has served the Bank at several locations across India and held important assignments in various fields like Retail Banking, International Banking etc. Previous to this assignment, Sh. Shankar Prasad Penukonda was handling the role profile of General Manager, Customer Service at State Bank of India, Corporate Center, Mumbai. He will be leading the operations of Network-I of Chandigarh Circle covering the State of Punjab.



GAIL is delighted to share that Shri Rakesh Kumar Jain, Director (Finance), GAIL (India) Limited was honoured with the prestigious "Public Sector CFO of the Year" award for excellence in CFO category at the 10th Edition of National Awards for Excellence in ceremony held at Taj Lands End, Mumbai on 13th July, 2023. Shri Jain has made revolutionary changes in finance functions with stellar leadership, outstanding commitment, associated processes and path-breaking digital initiatives that bring value to the organization and in turn maximizes Stakeholder return.

TATA METALIKS LIMITED REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

The Company recorded Revenue from Operations of ₹650 Crores and PBT of ₹6.1 Crores for the Quarter. Revenue was lower by 30% compared to Q4 FY'23 and deliveries of Pig Iron and Ductile Iron (DI) Pipe were lower by 42% and 30% respectively compared to Q4 FY'23 since one of the blast furnaces was under shut-down from end of April for major overhauling and repairs. DI Pipe deliveries, however, have increased 1.5-fold compared to Q1 FY'23 due to enhanced production from new DI Pipe Plant #2. After an almost vertical ramp-up of DI Pipe Plant #2, production has steadily increased and Finished Pipes production went past 40 kt in the quarter (35 kt in Q4 FY'23). Company's product portfolio now covers the larger size range of 900 to 1200 mm diameter pipes which constituted almost 30% of sales from the new plant. On the raw material front, with Q-o-Q drop in Coal prices, TML took buying position both on index and spot basis that has helped to lock its coke cost till Oct'23, which would help to maintain targeted spread between coke cost and Net Realisation. With better availability of domestic Iron Ore and lower exports of iron ore fines and pellets, iron ore prices dipped by ~2 to 5% compared to last quarter which has helped to reduce cost. Mr. Alok Krishna, Managing Director of Tata Metaliks said: "While DI Pipe business has delivered as per its planned volumes, Pig Iron business got adversely impacted due to lower production arising out of the major overhauling and repair of one of its blast furnaces from end of April. The Company's DI Pipe business has a healthy order book for FY'24 execution because of robust demand for Government's water infrastructure projects. The Company is geared up and well positioned to meet this demand in the upcoming quarters through additional volumes from the new DI Pipe plant which has ramped up very well in a short time."

JTEKT जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

(CIN – L29113D11984PLC018415)

पंजी. कार्यालय : सूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाग़बाग़ा रोड, नई दिल्ली-110001।
 फ़ोन नंबर : 011-23311194, 23327205
 ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in, वेबसाइट: www.jtekt.co.in

वीडियो कॉन्फ़ेस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीम्स (ओपीएम) के माध्यम से 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक(एजीएम) के आयोजन, वही बंदी तथा अन्तिम लामांश के संबंध में सूचना

1) शेयरधारक नोट करके कि कम्पनी की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को पूर्वा. 10.00 बजे (आईएसटी) काॉर्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी जनरल सर्वेजुल नंबर 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा सेबी सर्वेजुल नंबर सेबी/एचओ/सोएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 (इसमें आम सामूहिक रूप से 'सर्वेजुल' कहे गए हैं) और अन्य सभी लागू कानूनों के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ़ेस तथा अन्य ऑडियो विजुअल मीम्स (वीसी) के माध्यम से, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध किए जाने वाले व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

2) उपरोक्त सर्वेजुल के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022–23 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उक्त सभी शेयरधारकों को प्रेषित की जाएगी, जिनकी ई-मेल आईडी ज कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(पार्टिसिपेंट) के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों के पास शेयर अर्माधिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है वे अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर उस डिपॉजिटरी प्रतिकामों के पास पंजीकृत करावें ता तथा जिन सदस्यों के पास शेयर मौलिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना विवरण कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") कम्पनी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को einward_ris@kfinetech.com पर प्रस्तुत करें। 39वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 कम्पनी की वेबसाइट नाम: www.jtekt.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजज के वेबसाइट तथा आरटीए की वेबसाइट <https://evoting.kfinetech.com> पर भी उपलब्ध होगी।

3) जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे पास एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा रिमोटडी अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से डालने का अवसर होगा। अर्माधिक रूप में तथा मौलिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों के लिए रिमोटडी वोटिंग की विधि का उल्लेख शेयरधारकों हेतु सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा।

4) शेयरधारक नोट करके कि निदेशक मंडल ने 22 मई, 2023 को आयोजित उसकी बैठक में रु. 1/- के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 0.50 का अंतिम लामांश संसृत किया है। कम्पनी के सदस्यों का रजिस्ट्रर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार 29 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 तक (दोनों दिन सहित) आगामी वार्षिक सामान्य बैठक और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर लामांश, यदि घोषित किया गया, के भुगतान के प्रत्याख्यान बंद रहेंगे। लामांश का भुगतान, यदि आगामी एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया, 18 अगस्त, 2023 को/अथवा पश्चात, ऑनलाइन ट्रांसफर की विभिन्न विधियों द्वारा उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जो अपना बैंक विवरण अद्यतन करवा चुके हैं। जिन शेयरधारकों ने अपना बैंक विवरण अद्यतन नहीं करवाया है, उनको लामांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा। लामांश प्राप्ति में विलम्ब से बचने के लिए, शेयरधारकों से अपने केवाईसी का अद्यतनीकरण अपने डिपॉजिटरीज (यदि शेयर अर्माधिक रूप में धारित हैं) के पास और कम्पनी के आरटीए के पास (यदि शेयर मौलिक रूप में धारित हैं) करवाने का अनुरोध है ताकि लामांश उसके भुगतान की विधि को सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकें। लामांश का भुगतान लागू दरों पर सात पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन होगा। अधिक विवरण के लिए, कृपया एजीएम की सूचना के साथ संलग्न संदेश देखें।

5) जिन शेयरधारकों के शेयर अर्माधिक रूप में हैं, उनसे अपने पते या बैंक खाता विवरण में परिवर्तन अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अधिसूचित करने का अनुरोध है। जिन शेयरधारकों के शेयर मौलिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि सर्वेजुल के अनुरूप समय पर लामांश प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके सिस्टम (ईसीएस) का विकल्प अपनाएं। 4 आम शेयरधारकों से लामांश प्राप्त करने के लिए ईसीएस का उपयोग करने का आग्रह करते हैं।

6) जो शेयरधारक अपना ई-मेल पता/बैंक खाता आदेश पंजीकृत करवाना चाहते हैं, नीचे लिखे अनुरोधों का पालन करें:

अर्माधिक धारण	अपने डीमेट खाते में अपने विवरण का पंजीकरण/अद्यतनीकरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार करवाएं
मौलिक धारण	अपना विवरण निराति प्रत्र आईएसआर-1 और अन्य संबंधित प्रपत्रों में कम्पनी के आरटीए, कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास einward_ris@kfinetech.com पर पंजीकृत/अद्यतित करवाएं। शेयरधारक निराति प्रत्र कम्पनी की वेबसाइट https://www.jtekt.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

7) शेयरधारकों को 39वीं एजीएम की सूचना, लागू कानूनों के अनुसार, उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर स्वयमसेव भेजी जाएगी।

वारंते **जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड**

स्थान : गुरुग्राम सौरभ अग्रवाल
 तिथि : 17.07.2023 कम्पनी सचिव

कम्प्या सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड (CIN:L65922D2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोहरलाक्षरी ने सिक्वोरिट्राइनेशन एंड रिक्न्ड्रक्षण ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार रघेव उर्फ रघुवै, अनुर कुमार और इंड को 28.02.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00482429 की राशि रु.26,00,550.97 /-(रूपए छब्बीस लाख पाँच सौ पचास और सत्तानवे पैसे मात्र) और 16.02.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिषयचना सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोहरलाक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्वोरिटी इंस्ट्रेट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 13.07.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. 26,00,550.97 /-(रूपए छब्बीस लाख पाँच सौ पचास और सत्तानवे पैसे मात्र) 16.02.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड के अधीन होगा। उपारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
फ्लैट नं.एसएफ-6 के सभी भाग और खंड, डुरगरी मंजिल, पौछे आरएएएस, प्लॉट नं. -ए-69, एसएएफ वेद विहार, गाज़ियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
 दिनांक: 13.07.2023
 स्थान : गाज़ियाबाद
 इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड

कम्प्या सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड ("आईएचएफएल") प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्वोरिट्राइनेशन एंड रिक्न्ड्रक्षण ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार ओमन मीथिया प्राइवेट लिमिटेड वु इट्स डायरेक्टर्स, उर्वशी, ओशन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड वु इट्स डायरेक्टर्स, पवन अग्रवाल और शिशिर भूषण को 30.11.2018 की सूचना में वर्णन के अनुसार आईएचएफएल का कर्ज खाता नं. HHLNOI00382214 की राशि रु.3,09,35,715 (रूपये तीन करोड़ बी लाख पैंतीस हजार सात सौ पंद्रह मात्र) और 30.11.2018 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिषयचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा आईएचएफएल ने दिनांक 27.06.2023 के असाइमेंट रूलस के माध्यम से एस्टेट केअर एंड रिक्न्ड्रक्षण एटर्नाइज्ड लिमिटेड ("एससीआरई") के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज और कर्ज खाता सौदा है, जिसे एससीआरई को पुसलको में कर्ज खाता नं. HHLNOI00382214 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोहरलाक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्वोरिटी इंटररेस्ट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 14.07.2023 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु.3,09,35,715 (रूपये तीन करोड़ बी लाख पैंतीस हजार सात सौ पंद्रह मात्र) 30.11.2018 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ असेट्स केअर एंड रिक्न्ड्रक्षण एटर्नाइज्ड लिमिटेड के अधीन होगा। उपारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
 खाल पहडूडी सेक्टर-2 पर स्थित प्रोजेक्ट आिच प्रोवेंस एस्टेट में टावर-बी में चौथी मंजिल पर यूनिट/फ्लैट नं.- 0402 जिस्का अस्थावी सुपर एरिया 5800 स्क्वैअर फीट, फरीदाबाद गुडगाँव रोड, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, दो कर्जदार करण पाकिंग को जगह के साथ।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
 दिनांक: 14.07.2023
 स्थान : गुरुग्राम
 असेट्स केअर एंड रिक्न्ड्रक्षण एटर्नाइज्ड लिमिटेड
 (102- टूरट)

कम्प्या सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड (CIN:L65922D2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोहरलाक्षरी ने सिक्वोरिट्राइनेशन एंड रिक्न्ड्रक्षण ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार रघेव उर्फ रघुवै, अनुर कुमार और इंड को 28.02.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00482429 की राशि रु.8,32,016.86 /-(रूपए आठ लाख बीतीस हजार सोलह और छियासी पैसे मात्र) और 23.05.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिषयचना सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोहरलाक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्वोरिटी इंस्ट्रेट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 13.07.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. 8,32,016.86 /-(रूपए आठ लाख बीतीस हजार सोलह और छियासी पैसे मात्र) 23.05.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड के अधीन होगा। उपारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
आवासीय फ्लैट नं जी.एफ.-1, एम.आई.जी., तल भर्जिल बिना रूफ राइडरस के, बाएँ हाथ की ओर , निरसा कुल कवर्ड एरिया 325 स्क्.फीट यानि 30.19 स्क्.मी., आवासीय प्लॉट नं. डी -59 पर स्थित, माणित कुल एरिया 100 स्क्.यार्ड्स, खरसा नं. 210/2 में शामिल, "एस.एल.ए.वेद विहार, गोब सहैलबाब, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद-201012, उत्तर प्रदेश और प्लेट जो निम्नसार परिबद्ध है:

पूर्व: कॉमन पैवेमे और सीड्री और प्लैट नं जी.एफ.-1 (एन.आई.जी.)
 पश्चिम: प्लॉट नं. डी -58
 उत्तर: प्लॉट नं. डी -64
 दक्षिण: रोड नं. बी-3

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
 दिनांक: 13.07.2023
 स्थान : गाज़ियाबाद
 इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड

कम्प्या सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड (CIN:L65922D2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोहरलाक्षरी ने सिक्वोरिट्राइनेशन एंड रिक्न्ड्रक्षण ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्वोरिटी इंटररेस्ट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार स्काई इन्फ्राप्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स (वू इट्स पार्टनर्स), विवेक जैन (सह - उधारकर्ता, वेदा एच स्व.सुधामा जैन का कानूनी वारिस) स्टारवैड इन्फ्राप्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स, विभाज स्वरूप जैन पार्टनर स्काई इन्फ्राप्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स (सह-उधारकर्ता), एतित एच स्व.सुधामा जैन का कानूनी वारिस) और रिटु जैन पार्टनर स्काई इन्फ्राप्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स को 22.03.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HLPAGR00429062 की राशि रु.11,42,523.68/- (रूपए एक करोड़ ग्यारह लाख ब्यालीस हजार पाँच सौ तेईस और अठारठ पैसे मात्र) और 21.03.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिषयचना सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोहरलाक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्वोरिटी इंटररेस्ट (एफकोसिमेंट) रूलस, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 13.07.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु.11,42,523.68 /-(रूपए एक करोड़ ग्यारह लाख ब्यालीस हजार पाँच सौ तेईस और अठारठ पैसे मात्र) 21.03.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड के अधीन होगा। उपारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति एसएनसं नं. 7A/118 के सभी भाग और खंड, प्लॉट नं. 118 पर स्थित, माणित 200 स्क्.यार्ड्स, मानस पार्क नं स्थित, आगरा-2, आगरा 282010, उत्तर प्रदेश और जो निम्नसार परिबद्ध है:-
 पश्चिम : प्लॉट नं.1 105
 दक्षिण : प्लॉट नं.117

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
 दिनांक:13.07.2023
 स्थान : आगरा
 इंडियाबुल्स हार्जसिंग फायनन्स लिमिटेड

संचना ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 211, शिव शक्ति इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जे.आर. बोरिया मार्ग, कनूरुवा अस्पताल के सामने, लोअर परेत, मुंबई – 400 011
 फ़ोन: 022-30400500, ईमेल: sanchnatr@gmail.com
 सीआईएन – **L51900MH1985PLC035160**

यह सार्वजनिक घोषणा ("पीए" या "सार्वजनिक घोषणा") संचना ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पत्र दिनांक 05.02.23 के संदर्भ संख्या SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2023/2701/71 ("सेबी चूट") के भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के पत्र दिनांक 5 जुलाई, 2023 के अनुसार वीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध कंपनी के अपने 100% इक्विटी शेयरों वाली र. 10 प्रत्येक के 1005 इक्विटी शेयरों अर्थात 4,99,000 इक्विटी शेयरों ("इक्विटी शेयर") की स्वीच्छक डीलिटिंग के संबंध में जारी की जा रही है जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("स्वीच्छक डीलिटिंग" के संबंध में जारी की जा रही है विएस में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("स्वीच्छक डीलिटिंग" के संबंध में जारी की जा रही है विएस में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पत्र दिनांक 5 जुलाई, 2023 के अनुसार वीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध कंपनी के अपने 100% इक्विटी शेयरों वाली र. 10 प्रत्येक के 1005 इक्विटी शेयरों अर्थात 4,99,000 इक्विटी शेयरों अर्थात 4,99,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी के इक्विटी शेयर वीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं और वर्तमान में इनकी ट्रेडिंग निरवधि है। 1989 से, कंपनी की 100% स्वधारित कंपनी के प्रमोटर्स/प्रमोटर्ड समूह के पास रही है। 2. कंपनी के इक्विटी शेयरों की स्वीच्छक डीलिटिंग की पुष्टिपुति डीलिटिंग विनियमों के विनियमन 42 के तहत कंपनी द्वारा किए गए एक आवेदन के आधार पर, सेबी ने, सेबी चूट के माध्यम से, कंपनी को डीलिटिंग विनियमों के अध्याय कर के साथ पटित विनियमन 7 के प्राधान्यों यानी कंपनी की स्वीच्छक डीलिटिंग के मामले में सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने के प्राधान्यों की आवश्यकता के रखत अनुपालन से छूट दी और कंपनी को यह सार्वजनिक घोषणा जारी करने का निर्देश दिया गया।

3. घोषणा जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी 04 अगस्त 2023 को या उससे पहले वीएसई लिमिटेड से अपने इक्विटी शेयरों की स्वीच्छक डीलिटिंग के लिए वीएसई लिमिटेड को एक आवेदन करेगी। एक बार जब वीएसई लिमिटेड स्वीच्छक डीलिटिंग के लिए मंजूरी दे देता है, तो कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिट हो जाएंगे और अब ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। 4. संपर्क व्यक्ति यदि जन सामान्य के किसी सदस्य के पास कोई प्रश्न हैं, तो वह कंपनी के निदेशक श्री प्रदीप सैन, 211, शिव शक्ति इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जे.आर. बोरिया मार्ग, कनूरुवा अस्पताल के सामने, लोअर परेत, मुंबई –400 011, ईमेल: sanchnatr@gmail.com संपर्क नंबर: 022-30400500 को संबंधित कर सकते हैं। संचना ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के लिए, हस्ताक्षर- प्रदीप सैन, निदेशक दिनांक: 17 जुलाई, 2023 डीआईएन: 07244070

कम्प्या सूचना

जबकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनबली फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड नाम से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तिय परिस्परितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पटित धारा 13(12) के तहत प्रवत शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता(ओ)/सह-उधारकर्ता(ओ) को मांग सूचनाएं जारी कर उधारकर्ताओं को उक्त नामों के निबद्ध देय राशि, लागू आकरमिक खर्चों के रूप में मित्यथ के ब्याज के साथ, लागत, भुगतान और/या वसूली की दिनांक तक तबिएए एवं शुल्क आदि के साथ के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

क्र. सं.	व्रण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधकर्ता	13(2) सूचना दिनांक/ बकाया देय (रुपये में) तक	दिनांक/समय और कर्ज का प्रकार
1	45128640000831, 45129660000100 और 451296600001191	1) मेसर्स ईथोस हेल्थकेयर प्रा. लि., 2) श्री सुनिल कुमार शर्मा (उधारकर्ता), 3) श्रीमती अंजली शर्मा (गारंटर)	18.05.2022 रु. 3,98,62,152/- (रुपये तीन करोड़ अठ्ठाठ्ठा लाख बाईस हजार एक सौ बावन मात्र) दिनांक 05.05.2022 तक	दि. 12.07.2023 समय : दोपहर 12 : 40 बजे प्रतिकासक कम्प्या

बंधक अचल संपत्ति का विवरण : संपत्ति विवरण-1 : व्यवसायिक दुकान धारक सं. 139, माफक 56.646 वर्ग मीटर, स्थित आवासीय कॉलोनी अशोक सुविधा एवम् एचवेल कॉम्प्लेक्स से ज्ञात, फेज-1, गुडगांव,श्री सुनिल कुमार शर्मा, पुत्र श्री विद्या राम शर्मा द्वारा स्वाधिन। सीमांकन प्रकार : पूर्व : दुकान सं.140, परिधम सं.पत्र सं.138, उत्तर : दुकान सं.94, दक्षिण : कोरिडोर। संपत्ति विवरण-2 : लघु घर धारक सं.139, माफक 32.074 वर्ग मीटर, स्थित आवासीय कॉलोनी डीएलएफ कुतुब एचवेल कॉम्प्लेक्स से ज्ञात, फेज-1, गुडगांव, श्री सुनिल कुमार शर्मा, पुत्र श्री विद्या राम शर्मा द्वारा स्वाधिन। सीमांकन प्रकार : पूर्व : कोरिडोर, परिधम : दुकान सं. 138, उत्तर : कोरिडोर, दक्षिण : कोरिडोर।

जबकि, ऊपर उल्लेखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधकर्ता, देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लेखित उधारकर्ताओं को और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पटित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उक्त प्रतियों के प्रयोग में उपरोक्त दिनांकों पर उपरुक्त वधि बांणित संपत्तियों/सह-उधारकर्ताओं/ गारंटरों का कम्प्या प्राप्त कर लिया है। विशेष रूपसे ऊपर उल्लेखित उधारकर्ताओं/ सह-उधारकर्ताओं/ गारंटरों/बंधकर्ताओं और आम जनता को सामान्य रूप से एतद् द्वारा उपरुक्त संपत्तियों/प्रत्याभूत परिस्परिति से कोई भी व्यवहार करने से आग्रह किया जाता है और उक्त संपत्तियों/प्रत्याभूत परिस्परिति के साथ कोई भी व्यवहार जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
 दिनांक : 18.07.2023 प्रति. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक)
 पंजीकृत कार्यालय : ड फेयरवै, भू एव प्रथम तल, सर्व सं. 10/1, 11/2 और 12/2 की, ऑफ डेडमूल, कोरामंगला इन्टर सिग रोड, डीजीएल विनियेस पार्क के पास, चल्हाघाट्टा, बंगलोर-560071. शाखा कार्यालय : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L65990MH2010PLC240703,
 वेबसाइट : homefirstindia.com फोन नंबर : 180030008425 ई-मेल आईडी : loanfirst@homefirstindia.com

प्राइवेट ट्रीटी के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रतियुत आस्तियों की बिक्री – (नियम 8(6) के तहत सूचना)

अयोहरलाक्षरी ने, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड (होम फर्स्ट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, आपके द्वारा हमको देय बकाया राशियों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के निबन्धनों में, अनुपुत्री सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। कृपया हमारी निम्नलिखित दिनांक की सूचना देखें, जिसमें हमने सूचित किया था कि हम वणिगतानुसार सुरक्षित मौलिक नियंत्रण कर उल्लिखित समाचार पत्र में नीलामी सूचना प्रकाशित कर चुके हैं। नीलामी सूचना प्रकाशित की जा रही है। नीलामी की बकाया राशि की वसूली के लिए कम्पनी को स्वीकार्य शर्तों के अनुसार, प्राइवेट ट्रीटी के माध्यम से, "जेसी है जहां है आबा" तथा "जो है जैसी है आबा" पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

यदि उपर, उक्त अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों के प्राधान्यों के अनुसार, हम यह सूचना जारी कर रहे हैं ताकि आप कम्पनी की बकाया राशि इस सूचना की तिथि से 15 दिन के भीतर वापस कर सकें और अनुपुत्री में वर्णित आस्तियां वापस ले सकें, जिसमें असफल रहने पर आस्तियां बकाया राशि की वसूली हेतु बेच दी जाएगी। यह सूचना उक्त अधिनियम अथवा किसी अन्य लागू कानून के तहत कम्पनी को उपलब्ध किसी भी अथवा अधिकार को प्रतिकूल मान्यता दिए बिना जारी की जा रही है। इच्छुक पार्टियां, अतिरिक्त विवरण/स्पष्टीकरण के लिए तथा अपनी ऑफर्स प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री सरकारी एक्ट/नियमों के प्राधान्यों के अनुसार की जाएगी।

क्र. सं.	खाता/गारंटर्स का नाम	सम्पत्ति का विवरण/सम्पत्ति का स्वामी	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (आईएसआर में)	बिक्री सूचना की तिथि	समाचार पत्र	ई-नीलामी की तिथि	सुपुलित मूल्य (आईएसआर में)	प्राधिकृत अधिकारी का नंबर
1.	राकेश कश्यप, शशि कश्यप	प्लॉट नंबर 1, राम विहार कालोनी (प्लॉट नंबर 1), खरसा नंबर 1508, पत्र लोनी चकवदी क्षेत्र, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102	7,52,800	14-06-2023	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी + हिन्दी)	15-07-2023	6,22,500	9958116419
2.	मोनु मलिक, बीना	फ्लैट- जीएफ-03, बिल्डिंग का नाम- एलआईडी जीएफ-03 (रियर एलएफएस) तेनविया इन्फार्मेटिव प्लॉट नंबर डी-1/5 एवं डी-1/6, खरसा नंबर 348, रेत विहार कालोनी, ग्राम सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, जिनकोड-201010	9,39,953	14-06-2023	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी + हिन्दी)	15-07-2023	130,000	8800553102

सरकारी एक्ट, 2002 के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस

एतद्वारा कर्जदार/गारंटर को अधिसूचित किया जाता है कि मांग सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि अद्यतन ब्याज और अनुसंगी खर्चों के साथ, इस सूचना की तिथि से 15 दिन के भीतर चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। तिथि : 18-07-2023 प्राधिकृत

